



व्यक्तियों और घरों के लिए

कोरोनावायरस (कोवीड-19) के प्रत्युपाय समर्थन कार्ड एक समर्थन प्रणाली कार्ड खोजें

※ प्रत्येक प्रणाली आवेदन / उपयोग की शर्तों और भविष्य के अनुपूरक बजट के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हो सकती है। कृपया अपडेट के लिए वेबसाइट (QR कोड) पर जाकर चेक कीजिये



©2020 काई नागानो (चकिल)

जो 28 अप्रैल, 2020 से लागू हो

रहने का खर्च और किराया

आपातकालीन छोटी राशि (लोन)

Kinkyuu Koguchi Shikin (kashitsuke)



स्कूल, व्यक्तिगत व्यवसाय, आदि के बंद होने पर - 200,000 येन के भीतर

अन्य मामलों में - 100,000 येन के भीतर

संपर्क

समाज कल्याण परिषद (लेबर बैंकों के अतिरिक्त)

पात्रता

कोवीड-19 से प्रभावित लोग कम आमदनी के कारण और वे लोग जिन्हें अपनी आजीविका बनाए रखने की आवश्यकता है।

कोई ब्याज नहीं / कोई वारंटी नहीं/1 वर्ष की मोहलत/2 वर्ष का पुनर्भुगतान

सामान्य सहायता राशि (लोन)

Sogo Shien Shikin (kashitsuke)



दो या अधिक घर को 600,000 येन तक

एकल परिवार को 450,000 येन तक

संपर्क

समाज कल्याण परिषद (लेबर बैंकों के अतिरिक्त)

पात्रता

कोवीड-19 से प्रभावित परिवार और कम आमदनी या बेरोजगारी के कारण आर्थिक रूप से पीड़ित लोग।

कोई ब्याज नहीं / कोई वारंटी नहीं/ 1 वर्ष की मोहलत / 10 वर्ष का पुनर्भुगतान

आवास सुरक्षा भत्ता

Jyuukyo Kakuho Kyuufukin



3 महीने के किराए के बराबर राशि का मकान मालिक को भुगतान (यदि आप नौकरी मांग रहे हैं तो 9 महीने तक की राशि)

संपर्क

नगर पालिका में स्वतंत्रता सहायता केंद्र

पात्रता

उन लोगों के लिए, जिन्होंने 2 वर्षों के भीतर अपनी नौकरी खो दी/ जिनका काम बंद हो गया या इसी तरह की स्थितियों में काम से छुट्टी के कारण आमदनी में कमी आई, आदि।

संपत्ति और आमदनी आवश्यकताएं

छुट्टी के लिए समर्थन

छुट्टी भत्ता

Kyuugyo Teate



लेबर मानक अधिनियम के अनुसार, 60% या अधिक तनख्वाह की पेमेंट, जब नियोजकता अपने कर्मचारी को छुट्टी लेने का निर्देश देते हैं। (Labour Standards Act)

संपर्क

नौकरी के स्थान पर

पात्रता

जब कर्मचारी को अपने नियोजकता द्वारा छुट्टी लेने का निर्देश प्राप्त हो (पाट टाइम वर्क सहित)

रोजगार समायोजन अनुदान (Employment Adjustment Grants), छुट्टी भत्ता भुगतान के लिए उपलब्ध हैं

प्राथमिक विद्यालय की छुट्टी के लिए सब्सिडी

Shougakkou Kyuugyotou Taiou Joseikin



पेड छुट्टी का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। (प्रति दिन 8,330 येन तक)

संपर्क

स्कूल के छुट्टी अनुदान केंद्र

पात्रता

अभिभावक जिन्होंने स्कूल बंद होने के दौरान बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी ली।

इस पेड छुट्टी को वार्षिक वैतनिक छुट्टी (Annual Paid Leave) से अलग माना जाएगा

चोट और बीमारी का भत्ता (स्वास्थ्य बीमा)

Shoby Teatekin (Kenko Hoken)



कोवीड-19 संक्रमण के कारण काम करने में असमर्थ होने के दौरान, मानक दैनिक तनख्वाह (Standard Daily wage) का दो-तिहाई के हिसाब से दिया जाएगा

संपर्क

स्वास्थ्य बीमा संघ, आदि

पात्रता

कोविड -19 संक्रमण के कारण काम से अनुपस्थित कर्मचारी

4 वें दिन से 18 महीने तक प्रदान किया जाएगा

भत्ता (बेनाफिट) आदि

विशेष निश्चित लाभ (as of 20 अप्रैल)

Tokubetsu Teigaku Kyuufukin



हर निवासी को 100,000 येन सब्सिडी। कोई अमदनी प्रतिबंध नहीं। (3 महीने के भीतर आवेदन करने की आवश्यकता है)

संपर्क

नगरपालिका ईमेल या ऑनलाइन द्वारा आवेदन करें


पात्रता

राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना 27 अप्रैल, 2020 तक मूल निवासी रजिस्टर में सूचीबद्ध कोई भी।

परिवार के मुखिया को नगरपालिका से प्राप्त फॉर्म पर बैंक खाते का विवरण देना होगा।

यूटिलिटी फीस

Koukyou Ryoukin



19 मार्च को, सरकार ने, कोविड -19 से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता फीस के स्थगन के बारे में अधिसूचित किया था। यदि कठिन स्थिति के कारण भुगतान मुश्किल है, तो इन सेवाओं के लिए अपने स्थानीय भुगतान स्थान से परामर्श करें।

राष्ट्रीय पेंशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा

Kokumin Nenkin · Kokumin Kenkou Hoken



यदि कोविड -19 के कारण मृत्यु, गंभीर बीमारी, या कम अमदनी की उम्मीद है, तो बीमा प्रीमियम से छूट की संभावना है (कुछ अमदनी प्रतिबंध लागू) ※ भविष्य की जानकारी पर ध्यान दें

अवैतनिक तनख्वाह का प्रतिस्थापन भुगतान

Mibarai Chingin Tatekaebarai Seido



एक दिवालिया कंपनी के अवैतनिक तनख्वाह का 80% (ऊपरी सीमा है) बदलने के लिए एक व्यवस्था। (लेबर मानक निरीक्षण कार्यालय / Labour Standard Inspection Office)

सार्वजनिक सहायता

Seikatsu Hogo



जीवन निर्वाह के खर्च, घर के किराया, चिकित्सा के खर्च, आदि, की पेमेंट करी जाएगी, यदि अमदनी न्यूनतम जीवित व्यय से कम है। (स्थानीय सरकार)